



प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 16.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 16.09.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 16.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## एण्टीरोमियो स्ववाड द्वारा छात्राओं/ महिलाओं को महिला सुरक्षा के बारे में किया गया जागरूक !!

उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से महिला सुरक्षा एवं जागरूकता के दृष्टिगत चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपदवार गठित किए गए महिला सुरक्षा विशेष दल के क्रम में आज दिनांक 16.09.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर गठित एण्टीरोमियो दल द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों एवं ग्रामों में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया।

जिसमें मिशनशक्ति के तहत एण्टीरोमियो दल ने बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को पुलिस द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर- वूमेन पावर लाइन- 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, महिला सहायता- 181, यूपी 112 साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उक्त नंबर या तत्काल थाना पुलिस को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 16.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा




## पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय की समस्त शाखाओं का किया गया औचक निरीक्षण-

आज दिनांक 16.09.2022 को पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा की समस्त शाखाओं का औचक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा वाचक कार्यालय, प्रधानलिपिक शाखा, आंकिक शाखा, क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय, जनसूचना प्रकोष्ठ, विशेष जांच प्रकोष्ठ, महिला सहायता प्रकोष्ठ, सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय अवस्थित समस्त शाखाओं का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें सभी पत्रावलियों को वर्षवार/क्रमवार लगायें उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया, शाखाओं में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी से उनको आवन्तित कार्यों की समीक्षा की गयी जिसके क्रम में समस्त कर्मचारियों को निष्ठा, मेहनत, लगन व समर्पण की भावना से अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश संबंधित शाखा प्रभारी/कर्मचारियों को दिये, निष्प्रयोज्य फाइलों/सामानों का नष्टीकरण कमेटी बनाकर किया जाये।

इसी क्रम में निरीक्षण के दौरान शाखाओं में साफ-सफाई का स्तर सन्तोषजनक न पाये जाने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा कड़ी आपत्ति प्रकट करते हुये कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति पायी गयी तो दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, सभी को सख्त निर्देश दिये गये कि समस्त कर्मचारीगण कार्यालय समय से आयें समय से न आने पर सम्बन्धित की सैलरी से वेतन कटौती के निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, प्रतिसार निरीक्षक श्री सैन्यजीत सिंह सहित पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त शाखाओं के शाखा प्रभारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 16.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा




## पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशानुसार जनपद के अग्निशमन केंद्र महोबा में फायर ड्रिल, लेडर ड्रिल का आयोजन कर फायर एक्विस्टंग्युसर के संचालन/उपयोग की जानकारी दी गई

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में आज दिनांक 16.09.2022 को स्कीम-13 के अंतर्गत प्रभारी अग्निशमन महोबा श्री देवेश तिवारी द्वारा फायर स्टेशन महोबा के प्रांगण में फायर मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त अग्निशमन अधिकारी व कर्मचारियों को मॉक ड्रिल के अन्तर्गत फायर ड्रिल, लेडर ड्रिल, ब्रीदिंग ऑपरेटर्स व प्रोक्सिमिटी सूट के साथ-साथ फायर एक्विस्टंग्युसर के संचालन/उपयोग की जानकारी दी गई।

इसी क्रम में प्रभारी अग्निशमन द्वारा अग्निशमन उपकरणों के संचालन, रख-रखाव के बारे में उपस्थित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं आग से रोकथाम के उपाय बताए गए तथा केन्द्र पर तैनात कार्मिकों को आकस्मिक फायर कन्टिन्जेन्सी प्लान सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशों के बारे में बताया गया।

इस दौरान फायर स्टेशन महोबा में तैनात समस्त अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 16.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## जनपद में आगामी त्यौहार चेहुल्लम, शारदीय नवरात्रि के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद के समस्त थानों द्वारा पीस कमेटी मीटिंग का किया गया आयोजन ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम के पर्यवेक्षण में आगामी त्यौहार चेहुल्लम, शारदीय नवरात्रि के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आज दिनांक 16.09.2022 को जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा थानाक्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, एस-10, डिजिटल वॉलेंटियर्स व ग्राम चौकीदार के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की गयी ।

मीटिंग में आपस में प्रेम-सौहार्द बनाए रखने हेतु व अफवाहों पर ध्यान न देने तथा बच्चा चोरी जैसी अफवाहों को फैलने से रोकने आदि के सम्बन्ध में आमजन को जागरूक करने व पालन करने हेतु अपील की गयी ।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 16.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



**पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा आगामी त्यौहार चेहुल्लम, शारदीय नवरात्रि के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।**

आज दिनांक **16.09.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा आगामी त्यौहारो के दृष्टिगत जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील। स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **155** वाहनो के ई-चालान किये गये।



Shot on vivo S1  
AI Triple Camera

2022.09.16 18:33



प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 16.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस